

भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2001/पौष 18, 1922

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2001/PAUSA 18, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का. आ. 15(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हुई हैं जिनमें कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में से कुछेक प्रतिबंध लागू करने बंद किए जाए;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त फलू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी बी) तम्बाकू की बिक्री तम्बाकू बोर्ड के निर्दिष्ट नीलामी मंचों से करना उपयुक्त समझा था;

अतः अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975(1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा(2) के खंड(छ) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंध के प्रवर्तन में ढील देती है और तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर 2 रु० प्रति कि.ग्रा. का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर गैर-प्राधिकृत एफ सी बी सफल की बिक्री की अनुमति देती है ।

[फा. सं. 6/2/99-ईपी(एग्री-VI)-II]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2001

S. O. 15(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest that certain of the restrictions imposed by the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) should cease to be imposed;

And whereas the Central Government has considered it appropriate to dispose of the excess Flue Cured Virginia (FCV) tobacco at the designated auction platforms of the tobacco Board.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 30 read with Clause (g) of sub-section (2) of Section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby relaxes the operation of the provision of Section 10 of the said Act in the State of Karnataka for a period up to 28th February 2001 from the date of publication of this notification in the Official Gazette and permits the sale of unauthorized FCV tobacco crop at the auction platforms authorized by the Tobacco Board on payment of extra fee of Rs.2/- per kg.

[F. No. 6/2/99-EP(Agri. VI)-II]

R. GOPALAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का. आ. 16(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनमें कारण जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि पंजीकृत किसानों द्वारा अधिक मात्रा में उपजाए गए अनधिकृत तम्बाकू तथा गैर-पंजीकृत किसानों द्वारा अनधिकृत रूप से उपजाए गए तम्बाकू के प्रवेश से तम्बाकू के पंजीकृत उपजकर्ताओं की रक्षा की जाए;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने इसे उपयुक्त समझा है कि अतिरिक्त फलू क्योर्ड वर्जीनिया (एफ सी वी) तम्बाकू की बिक्री निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट नीलामी मंचों से की जाए ।

इसलिए अब तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तम्बाकू बोर्ड को 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के लिए यह प्राधिकार देती है कि वह कर्नाटक राज्य में पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत किसानों के द्वारा उपजाए गए तम्बाकू के अनधिकृत उत्पादन की अपने नीलामी मंचों पर खरीद करने के लिए तम्बाकू बोर्ड के नियमित एवं पंजीकृत व्यापारियों तथा डीलरों को निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान कर सकेगा

- (1) अनधिकृत मात्रा उपजाने वाले पंजीकृत उपजकर्ता द्वारा तथा अपंजीकृत उपजकर्ता द्वारा कर्नाटक में नीलामी मंचों पर बेची जाने वाली मात्रा पर 5 प्रतिशत का सेवा शुल्क लगाया जाए।
- (2) वर्ष 2000 के लिए तम्बाकू की फसल के संबंध में अधिकारों के रिकार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करना।

[फा. सं. 6/2/99-ईपी(एग्री-VI)-I]

आर. गोपालन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2001

S. O. 16(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the circumstances have arisen rendering it necessary in the public interest to protect the registered growers of tobacco from the entry of unauthorized tobacco produced in excess by registered farmers and produced unauthorizedly by unregistered farmers;

And whereas the Central Government has considered it appropriate to dispose of the excess Flue Cured Virginia (FCV) tobacco at the designated auction platforms as per the conditions mentioned below.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 20A read with Clause (g) of sub-section (2) of Section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government authorizes for a period up to 28th February 2001, the Tobacco Board to admit the regular and registered traders and dealers of the Tobacco Board to purchase at its auction platforms, the production of unauthorized tobacco produced by registered and unregistered farmers in the State of Karnataka subject to the following conditions:

- (1) a 5% service charge be imposed on the unregistered grower and the registered grower having grown an unauthorized quantity sold at the auction platforms in Karnataka; and
- (2) to furnish a copy of the Record of Rights in respect of the tobacco crop for the year 2000.

[F. No. 6/2/99-EP(Agri. VI)-I]

R. GOPALAN, Jt. Secy.

